



केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
मुख्यालय कार्यालय, प्रयागराज
जनसम्पर्क विभाग

संख्या : कोर/जी/पीआर/10/22

दिनांक 03.03.2022

प्रेस विज्ञप्ति

इट्टावा-मैनपुरी-फरुखाबाद रेल मार्ग पर अब विद्युत इंजन से चलेंगी रेल गाडियाँ

केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज के अथक प्रयास से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को साकार करते हुए ब्रॉड गेज रूटों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कोर की लखनऊ परियोजना ने उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मण्डल के इट्टावा-मैनपुरी-फरुखाबाद (107.475 RKM) सेक्शन का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 03.03.2022 को सीआरएस निरीक्षण का कार्य सफलता पूर्वक करा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है।

इस खण्ड के विद्युतीकरण हो जाने से अब कानपुर से फरुखाबाद-मैनपुरी-शिकोहाबाद रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेने चल सकेंगी। मेमु ट्रेनों के चलने से स्थानीय यात्रियों को इसका बहुत लाभ होगा। सभी ट्रेने कानपुर से शिकोहाबाद मेन लाइन से नई दिल्ली और पश्चिम रेलवे की ओर विद्युत इंजन द्वारा चलाई जा सकेंगी। कानपुर-फरुखाबाद-शिकोहाबाद और इट्टावा मैनपुरी सेक्शन के बीच सभी रेल यातायात के लिए ट्रेक्शन परिवर्तन से भी बचा जा सकता है। जिससे परिचालन समय में काफी बचत होगी और साथ ही परिचालन में तीव्रता भी आयेगी।

भारतीय रेल को स्वच्छ पर्यावरण के साथ प्रदूषण रहित एवं आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करते हुए हरित रेल बनाने की राह पर केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, अहम भूमिका निभा रहा है। इसी महत्वपूर्ण कड़ी में यह एक मील का पत्थर है।

कोर के महाप्रबन्धक श्री यशपाल सिंह, ने लखनऊ परियोजना की इस उपलब्धि पर सभी संबन्धित को बधाई दी एवं खुशी जताते हुए कहा कि कोर रेल लाइनों के पूर्ण विद्युतीकरण करने के लक्ष्य की ओर निरन्तर अग्रसर हैं, उसी दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।

(अमिताभ शर्मा)
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी
कोर/प्रयागराज